



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1043 राँची, सोमवार,

26 नवम्बर, 2018 (ई०)

### भारत निर्वाचन आयोग

-----

#### अधिसूचना

26 नवम्बर, 2018/5 अग्रहायण, 1940 (शक)

**संख्या-100/झार.-वि.स./3/2018 :-** यतः झारखण्ड राज्य की विधान सभा में **71-कोलेबिरा (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित **श्री एनोस एक्का** को भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 (1)(ड०) तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत निरहृत किये जाने के कारण दिनांक 3 जुलाई, 2018 से एक स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (2) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) झारखण्ड राज्य से उक्त **71-कोलेबिरा (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्वीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार **26 दिसम्बर, 2018** से पूर्व राज्य की किसी भी अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले एक व्यक्ति को, राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से निर्वाचित कर दें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

- (क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख: 3 दिसम्बर, 2018 (सोमवार)
- (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: 4 दिसम्बर, 2018 (मंगलवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: 6 दिसम्बर, 2018 (बृहस्पतिवार)
- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: 20 दिसम्बर, 2018 (बृहस्पतिवार)
- (ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: 26 दिसम्बर, 2018 (बुधवार)

नियत करता है; और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

के० एन० भार,  
प्रधान सचिव  
भारत निर्वाचन आयोग ।

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एल० खियांगते  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-अपर मुख्य सचिव

-----

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATION

26<sup>th</sup> November, 2018/05 Agrahayana, 1940 (Saka)

**No.100/JKD-LA/3/2018:- WHEREAS**, the seat of Shri Anos Ekka in the Legislative Assembly of the State of Jharkhand, elected from 71-Kolebira (ST) Assembly Constituency in the State, has become vacant on 3<sup>rd</sup> July, 2018 due to disqualification consequent upon his Conviction under the provision laid down under Article 191(1)(e) of the Constitution of India read with Section 8 of the Representation of the People Act, 1951, and;

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (2) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

- (A) calls upon the said 71-Kolebira (ST) Assembly Constituency in the State of Jharkhand, to elect, before the **26<sup>th</sup> December, 2018** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person belonging to any of the Schedule Tribes of the State, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) appoints, with respect to the said election:-
  - (a) the 3<sup>rd</sup> December, 2018 (Monday), as the last date for making nominations;
  - (b) the 4<sup>th</sup> December, 2018 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;
  - (c) the 6<sup>th</sup> December, 2018 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
  - (d) the 20<sup>th</sup> December, 2018 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
  - (e) the 26<sup>th</sup> December, 2018 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) fixes the hours from 7.00 A.M to 3.00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

**K.N.BHAR,**

**PRINCIPAL SECRETARY**

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**